

August 13, 2023

<b>BSE Limited</b> Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 <a href="mailto:corp.relations@bseindia.com">corp.relations@bseindia.com</a> <b>Scrip Code: 532286</b>	<b>National Stock Exchange of India Limited</b> Exchange Plaza, 5 <sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 <a href="mailto:cm1ist@nse.co.in">cm1ist@nse.co.in</a> <b>Symbol: JINDALSTEL</b>
--	---

Dear Sir/ Madam,

**Subject: Intimation under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") - Newspaper Publication**

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of the Un-audited Financial Results for the 1<sup>st</sup> quarter / three months ended on June 30, 2023, of the financial year 2023-24, published in Hari Bhoomi (Hindi) and Mint (English) (all editions) newspapers on August 12, 2023.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,  
For **Jindal Steel & Power Limited**

**Anoop Singh Juneja**  
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above

**Jindal Steel & Power Limited**

**Corporate Office:** Jindal Centre, 12 Bhikaiji Cama Place, New Delhi 110 066

**CIN:** L27105HR1979PLC009913

**T:** +91 11 4146 2000 **F:** +91 11 2616 1271 **W:** [www.jindalsteelpower.com](http://www.jindalsteelpower.com) **E:** [jsplinfo@jindalsteel.com](mailto:jsplinfo@jindalsteel.com)

**Registered Office:** O. P. Jindal Marg, Hisar, 125 005, Haryana

**MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI**  
ASSESSMENT & COLLECTION DEPARTMENT (HQ)  
14<sup>th</sup> Floor, Dr. Shyama Prasad Mukherjee Civic Centre, Jawahar Lal Nehru Marg, Minto Road, New Delhi-110002  
No. : TAX/HQ/MCD/2023-24/D-2183 Dated : 10.08.2023

**PUBLIC NOTICE**

Public at large is hereby informed that in case of transfer of property through Registered Sale Deed/ Registered Agreement to Sale/ Registered Gift etc. through office of Sub-Registrars, w.e.f. 01.04.2019, no separate application for e-change of name is required on MCD portal and these cases are auto triggered and e-change of name certificate is auto generated.

These certificates are valid e-change of name certificate akin to other e-change of name certificate generated by the application on MCD portal. Citizen can themselves download this certificate from website of MCD i.e. <https://mcdonline.nic.in/portal> (Go to Home page-check 'Download mutation certificate' after entering the registration No. and date). This certificate requires no stamping or signature by any MCD officials.

It is bounden duty of officials of A&C Deptt, MCD to update D&C register subsequent to such auto e-change of name on his/her own or upon production of such record by the taxpayers and there is no need to submit separate application for e-change of name.

Sd/-  
(Kunal Kashyap, IRS)  
Assessor & Collector, MCD

R.O. No. 36/DPI/MCD/2023-24

**BSES Yamuna Power Limited, Delhi**  
... A joint venture with Govt. of NCT of Delhi

**NOTICE INVITING TENDER** Date: 12.08.2023

A sealed tender under two Bid System (Unpriced and priced) is invited for the following job:

NIT No.	Brief Description	Estimated Cost (₹)	Cost of EMD (₹)	Due Date & Time of Submission	Date & time of opening
CMC/BY/23-24/RS/SvS/AS/24	SHIFTING OF EHV/HT/LT CABLES FOR CONSTRUCTION OF FLYOVER AT ROAD NO. 56 BETWEEN ANAND VIHAR ROB & APSARA BORDER ROB, DELHI ( DUE TO 6-LANE FLYOVER BY PWD)	3.03 Crore	6 Lakh	04.09.2023 13:00 Hrs	04.09.2023 15:30 Hrs
CMC/BY/23-24/RS/SkS/SV/25	TURNKEY PACKAGE FOR SUPPLY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING (SITC) OF 11 KV SINGLE PHASE POLE MOUNTED CIRCUIT BREAKER FOR HVDS NETWORK	0.80 Crore	1.60 Lakh	04.09.2023 14:00 Hrs	04.09.2023 16:00 Hrs

Cost of Tender Document: ₹1,180/-  
For details in respect of Equipment/BOM/Services, Qualifying requirements, Terms & conditions, purchase/submission of tender documents, corrigendum etc. please visit our website [www.bsesdelhi.com](http://www.bsesdelhi.com) -->Tenders-->BSES YAMUNA POWER LTD-->Open Tenders  
Head (Contracts & Materials)  
Regd. Off: BSES Yamuna Power Ltd., Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi-110032  
CIN: U40109DL2001PLC111525 | TEL: 011-41247111

**दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड**  
(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)  
पर्यावास भवन, ब्लॉक नं. 1, द्वितीय तल (ए), जेल रोड, अररा हिल्स, भोपाल-462011  
दूरभाष : (0755) 2763757, 2570343, 2576213, CIN : U01410MP1962SGC000937  
Website : <http://www.mpsmcl.mp.gov.in>, <https://ekhanij.mp.gov.in>  
E-mail : [info.mpsmc@mp.gov.in](mailto:info.mpsmc@mp.gov.in)

क्र. : ई-निविदा सूचना क्रमांक-रेत/निविदा/2023/432 दिनांक : 11.08.2023

**रेत खनिज की ई-निविदा सह नीलामी (E-TENDER CUM AUCTION) सूचना**

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त घोषित रेत खदानों का उल्लिखित, 10 वर्ष की अवधि के लिये, दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि. (निगम) के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत इन खदानों से रेत खनन एवं विक्रय हेतु ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से चयनित माईन डेवलपर कम ऑपरटर (एम.डी.ओ.) अधिकृत होगा एवं समस्त वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा। निगम, विभिन्न रेत खदानों के समूहों के संचालन हेतु अधिसूचित की गई मात्रा (घन मीटर) एवं आरक्षित मूल्य के आधार पर, 03 वर्ष हेतु एम.डी.ओ. की नियुक्ति के लिये, ऑनलाइन पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> के माध्यम से इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले प्रतिभागियों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है। प्रत्येक समूह के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव जमा करने की अवधि 19.08.2023 से 06.09.2023 अर्थात् 05:00 बजे तक रहेगी। ई-निविदा में तकनीकी रूप से पात्र पाये गये प्रतिभागियों के वित्तीय प्रस्तावों में से अधिकतम राशि को आधार मूल्य बनाकर, ई-नीलामी के माध्यम से उच्चतम प्रतिभागी का चयन किया जायेगा।

इच्छुक निविदाकारों की शंकाओं के निराकरण एवं ऑनलाइन ई-निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु सत्र, हाईब्रिड मोड में, में म.प्र. राज्य खनिज निगम, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, पर्यावास भवन, अररा हिल्स, भोपाल एवं ऊपर उल्लिखित पोर्टल पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन, दिनांक 17.08.2023 को 12.00 बजे से 02.00 बजे दोपहर तक रखा जायेगा।

ई-निविदा सह नीलामी प्रपत्र, समूहों का विवरण, अनुबंध का प्रारूप, विस्तृत शर्तें आदि <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp> के अतिरिक्त निगम की वेबसाइट [www.mpsmcl.mp.gov.in](http://www.mpsmcl.mp.gov.in) तथा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल <https://ekhanij.mp.gov.in> पर दिनांक 12.08.2023 (अर्थात् 04:00 बजे) से उपलब्ध रहेगा। मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 भी निगम की वेबसाइट एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल पर उपलब्ध है। निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय के निवारण हेतु ई-मेल [info.mpsmc@mp.gov.in](mailto:info.mpsmc@mp.gov.in) पर पूछा भेजा जा सकता है, साथ ही मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के मुख्य कार्यालय पर्यावास भवन, द्वितीय तल स्थित कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में उक्त नम्बरों पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है। ई-निविदा सह नीलामी प्रस्तुत करने हेतु निविदाकार के डिजिटल सिग्नेचर (क्लास-III) आवश्यक होंगे। समूहवार खदानों की संख्या, निविदा मात्रा एवं प्रारंभिक आधार मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	रेत खदानों के समूह का नाम	समूह में सम्मिलित रेत खदानों की कुल संख्या	समूह हेतु निविदा मात्रा (घनमीटर)	निविदा हेतु प्रारंभिक आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) ₹. @250 प्रति घनमीटर
1.	गुना	23	100000	25000000
2.	राजगढ़	23	35000	8750000
3.	धार	19	40000	10000000
4.	देवास	28	80000	20000000
5.	सिंगरीली	42	2000000	500000000
6.	शहडोल	34	2200000	550000000
7.	अनूपपुर	18	700000	175000000
8.	शाजापुर	21	51000	12750000
9.	झिंडोरी	7	300000	75000000
10.	पन्ना	31	1200000	300000000
11.	टीकमगढ़	21	390000	97500000
12.	अलीराजपुर	29	175000	43750000
13.	उज्जैन	42	129000	32250000
14.	मंदसौर	8	12000	3000000
15.	ततलाम	14	35000	8750000
16.	आगर-मालवा	4	15000	3750000
17.	भिण्ड	72	3000000	750000000

ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निगम आवश्यकतानुसार निविदा दस्तावेजों/शर्तों में सुधार कर सकेगा, जिसकी जानकारी केवल <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/mmbmp/index.jsp>, [www.mpsmcl.mp.gov.in](http://www.mpsmcl.mp.gov.in) एवं <https://ekhanij.mp.gov.in> वेबसाइट्स पर ही प्रदर्शित की जावेगी। उक्त सभी संशोधन प्रतिभागियों पर बंधनकारी होंगे।

म.प्र. माध्यम/111385/2023 प्रबंध संचालक

**Greater Noida Industrial Development Authority**  
Plot No. 01, Knowledge Park IV, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201308  
website : [www.greaternoidaauthority.in](http://www.greaternoidaauthority.in) E-mail : [authority@gnida.in](mailto:authority@gnida.in)

Reference Number: 62303 Dated: 10/08/2023  
Expression of Interest (EOI) for Institutional Office Spaces in Tower 2 of GNIDA Campus on a License Fee model at Greater Noida

EOI document is available on the E-Procurement Portal of Government of UP (<https://etender.up.nic.in>) from 16/08/2023. Interested Banks, Institutions are required to submit required documents on or before 1700 hrs, 06/09/2023 through the E-Procurement portal. Pre-bid conference is scheduled at 3:30 PM on 28/08/2023, through (Zoom Meeting ID: 864 2933 4208, pass code: 1234)

In case of any queries, the Bidders are requested to contact Manager, Asset Department, GNIDA, Plot No: 01, Knowledge Park IV, District: Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201308. We encourage all interested participants to contact Manager, Asset and visit the site Email: [ppmishra@gnida.in](mailto:ppmishra@gnida.in), Phone: +91 98103 80863. In charge (Asset), GNIDA

Follow Us On / OfficialGNIDA

**RajCOMP Info Services Limited (RISL)**  
C-Block, 1<sup>st</sup> Floor, Yajana Bhawan, Tikak Marg, C-Scheme, Jaipur  
RISL invites e-bids from the eligible bidders for the following:

NIB No./Date/Unique bid no.	Particulars	Estimated Cost/EMD	Start of sale/Last date
620/08.08.2023 (RIS2324 WSOB00045)	Establishment of I-Start Launchpad at school and colleges of Jodhpur Zone (Jodhpur, Pali, Jalore, Sirohi, Barmer, Jaisalmer)	Rs. 1.65 Cr/ Rs. 3.30 Lacs	08.08.2023 22.08.2023
621/08.08.2023 (RIS2324 WSOB00046)	Establishment of I-Start Launchpad at school and colleges of Udaipur Zone (Udaipur, Banswara, Dungarpur, Rajsamand, Chittorgarh, Pratapgarh)	Rs. 1.44 Cr/ Rs. 2.88 Lacs	08.08.2023 22.08.2023
622/08.08.2023 (RIS2324 WSOB00047)	Request for Proposal (RFP) for Establishment of I-Start Launchpad at school and colleges of Jaipur Zone (Jaipur, Dausa, Alwar, Sikar, Jhunjhunu)	Rs. 1.40 Cr/ Rs. 2.80 Lacs	08.08.2023 22.08.2023

Details can be seen on the websites <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://risl.rajasthan.gov.in>, & <http://doitc.rajasthan.gov.in>. Bids are to be submitted through <http://eproc.rajasthan.gov.in>.  
Raj.Samwad/C/23/7341 AEN (Civil), RISL

**JINDAL PANTHER**  
**JINDAL STEEL & POWER LIMITED**  
(CIN: L27105HR1979PLC009913)  
Regd. Office: O. P. Jindal Marg, Hisar-125005 (Haryana)  
Corporate Office: Jindal Centre, 12 Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066  
Tel: +91 11 4146 2000 | Fax: +91 11 2616 1271 | Email: [jsplinfo@jindalsteel.com](mailto:jsplinfo@jindalsteel.com)  
Website: [www.jindalsteelpower.com](http://www.jindalsteelpower.com)

jsplcorporate Jindal Steel & Power Ltd. jsplcorporate jsplcorporate

REGULATION 47 (1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

EXTRACT OF CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2023  
(Rs. In crores except for Shares and EPS)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Financial Year ended	
		June 30, 2023	March 31, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations (net)	12,588.34	13,691.93	13,045.41	52,711.18
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,766.55	958.96	2,502.49	5,854.95
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	1,766.55	805.49	2,563.39	4,485.49
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	1,691.80	465.66	1,990.00	3,193.21
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profits/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	1,641.19	460.38	2,354.82	3,171.25
6.	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	100.50	100.50	100.50	100.50
7.	Other equity (excluding Revaluation Reserve)				38,606.09
8.	Earnings Per Share (Face Value of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	Basic:	16.79	4.60	19.73	31.54
	Diluted:	16.79	4.60	19.73	31.54

Notes:  
1. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2023, is available on the website of Stock Exchanges at ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) / [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) as well as on the Company's Website at ([www.jindalsteelpower.com](http://www.jindalsteelpower.com)).  
2. These Un-Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on August 11, 2023 and were approved by the Board of Directors in their meeting held on August 11, 2023.

KEY NUMBERS OF FINANCIAL RESULTS ON STANDALONE BASIS (Rs. in crores)

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2023	Quarter ended March 31, 2023	Quarter ended June 30, 2022	Financial Year ended March 31, 2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Turnover	12,324.57	13,402.59	12,869.35	51,228.99
2.	Profit/(Loss) before Tax	1,869.58	1,101.83	6,338.88	2,872.07
3.	Profit/(Loss) after Tax	1,399.52	789.20	6,623.08	2,426.83

By order of Board  
Bimlendra Jha  
Managing Director

Place: New Delhi  
Dated: August 11, 2023

**CNH INDUSTRIAL CAPITAL**  
**CNH Industrial Capital (India) Private Limited**  
(CIN: U65999DL2017PTC325228)

Statement under Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter ended 30 June 2023  
(Rs. in Millions)

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2023

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (refer to note 6)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	624.45	569.02	2,324.62
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	278.36	(29.81)	253.67
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	278.36	(29.81)	253.67
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	208.05	(22.31)	148.37
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	204.09	(30.12)	178.46
6	Paid up Equity Share Capital	3,972.00	3,972.00	3,972.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	582.21	169.52	378.10
8	Securities Premium Account	-	-	-
9	Net Worth	4,554.21	4,141.52	4,350.10
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	13,995.53	14,385.54	13,871.21
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	3.07	3.47	3.19
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)*			
	a) Basic	0.52	(0.06)	0.37
	b) Diluted	0.52	(0.06)	0.37
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15	Debt Redemption Reserve	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

\*Quarter end Basic EPS and Diluted EPS are not annualised

Notes:  
1. The above results for the quarter ended 30 June 2023 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10 August 2023 and are limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company pursuant to the requirement of Regulation 52 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 (as amended) including relevant circulars issued by the SEBI from time to time.  
2. The above is an extract of the detailed format of the quarter ended results filed with the Bombay Stock Exchange ("BSE") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full financial results are available on the website of BSE (<https://listing.bseindia.com>) and is also available on the Company's website ([www.cnhindustrialcapital.com](http://www.cnhindustrialcapital.com)).  
3. For other items referred to in the sub-clauses of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the BSE and can be assessed on (<https://listing.bseindia.com>).  
4. During the quarter, the Company has issued Commercial paper of Rs. 800 Million and the same got listed on BSE on 9 June 2023.  
5. The results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard (Ind AS) 34 - "Interim Financial Reporting" as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other accounting principles generally accepted in India.  
6. The figures pertaining to the quarter ended 30 June 2022 have been approved by the Board of Directors but have not been subjected to review by our statutory auditors. However, the management has exercised necessary due diligence to ensure that the result for the period provide a true and fair view of the Company's affairs.

For CNH Industrial Capital (India) Private Limited  
Sd/-  
Vishal Chaudhury  
Managing Director  
DIN No.: 09463209

Place: Gurugram  
Date: 10 August 2023

Regd Office: 4<sup>th</sup> Floor Rectangle No.1 Behind Marriot Hotel, Commercial Complex D4, Saket NA New Delhi South Delhi DL 110017 IN

